

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 574]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2018—आश्विन 17, शक 1940

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2018

क्र. एफ-2-6-2018-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 18 जुलाई 2018 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची-“एक”

(1) सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक शाह, प्रमुख सचिव.

## अनुसूची-“दो”

विभाग का नाम:—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				रिमार्क	
				अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	मूक बधिर	मानसिक रूप से अविकसित एवं बहु विकलांग		योग (कालम न. 5, 6, 7, 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक	19	1	0	0	1	0	1	
	व्याख्याता दृष्टि बाधित	11	1	0	1	0	0	1	
	व्याख्याता श्रवण बाधित	9	1	0	0	0	1	1	
	व्याख्याता अस्थि बाधित	4	0	0	0	0	0	0	
	योग . .	43	3	0	1	1	1	3	
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	8	1	1	0	0	0	1	
	परिवीक्षा अधिकारी	6	0	0	0	0	0	0	
	सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी	384	23	6	6	6	6	24	अस्थि, श्रवण एवं दृष्टि बाधित श्रेणी में 24 पद की पूर्ति की जा चुकी है.
	आक्यूपेशनल थैरापिस्ट	4	0	0	0	0	0	0	
	शिक्षक दृष्टि बाधितार्थ	24	1	0	0	1	0	1	
	शिक्षक श्रवण बाधितार्थ	47	3	1	1	0	1	3	
	शिक्षक अस्थि बाधित	1	0	0	0	0	0	0	
	वार्डन (निम्न वेतनमान)	1	0	0	0	0	0	0	
शिक्षक फोटोकला	1	0	0	0	0	0	0		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	निम्न श्रेणी शिक्षक	1	0	0	0	0	0	0	0
	प्रशिक्षक/अनुदेशक	11	1	0	1	0	0	1	
	प्रशिक्षक	3	0	0	0	0	0	0	
	उच्च श्रेणी शिक्षक	6	0	0	0	0	0	0	
	शिक्षक मानसिक	6	0	0	0	0	0	0	
	शिक्षक अपंग	1	0	0	0	0	0	0	
	नर्स	1	0	0	0	0	0	0	
	योग . .	505	31	8	8	7	7	30	
तृतीय श्रेणी लिपिकीय	स्टेनोटाईपिस्ट	11	1	0	0	1	0	1	
	सहायक वर्ग-3	235	14	4	4	3	3	14	
	योग . .	246	15	4	4	4	3	15	
चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	282	17	5	4	4	4	17	
	वाहन स्वच्छक	19	1	0	0	0	1	1	
	समूह परिचारक	7	1	0	1	0	0	1	
	कर्मशाला सहायक	9	1	0	0	1	0	1	
	आया	10	1	1	0	0	0	1	
	स्वीपर	9	1	0	0	0	1	1	
	रसोईया	8	0	0	0	0	0	0	
	चोकीदार	1	0	0	0	0	0	0	
	कस्टोडियान	8	0	0	0	0	0	0	
	अकुशल कर्मचारी	3	0	0	0	0	1	1	
	योग . .	356	22	6	5	5	7	23	
	महायोग . .	1150	70	18	18	17	18	71	

अशोक शाह, प्रमुख सचिव.